

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]

दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2018/पौष 7, 1940

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 693

No. 246]

DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2018/PAUSHA 7, 1940

[N.C.T.D. No. 693]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस—II) विभाग

(कार्यालय उपायुक्त पुलिस: यातायात: मुख्यालय)

(दिल्ली यातायात पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली)

अधिसूचना

दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2018

सं. फ. 20/4/2003/गृ. पु. -II-1564.—जबकि, रिंग रोड के साथ वाली सर्विस रोड, एंड्रयूज गंज चौक से ई-ब्लॉक, डिफेंस कॉलोनी, पर यातायात की सघनता के कारण यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है और इससे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा उत्पन्न हो रही है;

और जबकि, यातायात के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करने और वाहन चालकों एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए रिंग रोड के साथ वाली सर्विस रोड, एंड्रयूज गंज चौक से ई-ब्लॉक, डिफेंस कॉलोनी पर यातायात के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए यह करना आवश्यक है;

अतः मैं, राजीव रंजन सिंह, उपायुक्त पुलिस, यातायात (मुख्यालय) दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम 1980 की धारा 21 जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रिंग रोड के साथ वाली सर्विस रोड को एंड्रयूज गंज चौक से ई-ब्लॉक, डिफेंस कॉलोनी के कट, नाले के नजदीक (चेतना मार्ग) तक, सभी प्रकार के वाहनों के लिए दिन के चौबیس घंटे एकतरफा मार्ग घोषित करता हूँ, अगले आदेश तक ।

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों व थानों दिल्ली/नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जाएगी ।

संबंधित अधिकरण एवम् सड़क रख-रखाव प्राधिकरण जन साधारण को सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट पर प्रतिबंधित संकेत को इंगित करते हुए लगाएँगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनांक 24.12.2018 को जारी किया गया।

राजीव रंजन सिंह, उपायुक्त पुलिस

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

(OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE: TRAFFIC: HQ.)

(DELHI TRAFFIC POLICE HDQRS, NEW DELHI.)

NOTIFICATION

Delhi, the 24th December, 2018

F. No. 20/4/2003/HP-II-1564.—Whereas, heavy flow of traffic is causing obstruction in smooth flow of traffic and inconvenience to other road users on service road along Ring Road from Andrews Ganj Chowk to E-Block, Defence Colony;

And whereas, it is necessary to regulate the movement of traffic on service road along Ring Road from Andrews Ganj Chowk to E-Block, Defence Colony to ensure smooth flow of traffic and for convenience and safety of motorists and other road users;

Now, therefore, I, Rajiv Ranjan Singh, Deputy Commissioner of Police/Traffic (HQ), Delhi in exercise of the powers, conferred upon me under Regulation 21 of the Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Roads and Street Regulations, 1980 do hereby declare 'One Way' traffic movement on service road along Ring Road from Andrews Ganj Chowk to E-Block, Defence Colony cut near Nallah (Chetna Marg) for all type of vehicles for 24 hours of the day, till further orders.

This order shall be published for the information of the general public in the official gazette and by affixing a copy on the notice boards of the office of all District Deputy Commissioner of Police and all Police Stations in Delhi/New Delhi.

The concerned civic road agencies maintaining the roads/areas shall erect the corresponding informatory signboards indicating the restrictions in the area for the guidance and convenience of all concerned.

This order shall come into force with immediate effect.

Given under my hand and seal of this office on 24.12.2018.

RAJIV RANJAN SINGH, Dy. Commissioner of Police